



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2025 / 1164

दिनांक: 28-10-2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्नातक सेमेस्टर परीक्षा-2026 के

परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी विज्ञप्ति

अधिनियम -199 G1 से G21 (Notification No. 35) के अनुसरण में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत प्रथम सेमेस्टर के नियमित परीक्षार्थी एवं प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के स्वयंपाठी (Non-Collegiate or Private) परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म वेबसाइट www.univraj.org पर ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	तिथि
1	Three/Four Year Bachelor of Arts/Science/Commerce/ B.Sc. Bio-Tech./ B.Sc. Home Science/ Bachelor of Computer Application/ Bachelor of Business Administration/ Bachelor of Performing Arts/ Bachelor of Visual Arts (B.A., B.Sc., B.Com., B.Sc. Bio-Tech., B.Sc. Home Science, B.C.A., B.B.A., B.P.A. and B.V.A) प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी	29.10.2025 से 13.11.2025 तक
2	Three/Four Year Bachelor of Arts/Science/Commerce (B.A., B.Sc., B.Com.) प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के स्वयंपाठी परीक्षार्थी	

- नोट: 1. विश्वविद्यालय की शेष परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने हेतु शीघ्र ही पृथक से विज्ञप्ति जारी की जावेगी।
2. सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए, आवेदन की अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करें।
3. परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाओं हेतु वेबसाइट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org का निरन्तर अवलोकन करें।

सामान्य निर्देश


- विश्वविद्यालय के समस्त नव प्रवेशित पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थियों का CSV File के माध्यम से ही आवेदन होगा। अतः महाविद्यालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि नियमानुसार योग्य परीक्षार्थियों की ही CSV File Upload करें।
- NEP में UG के नियमित विद्यार्थियों को सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) में पात्रता हेतु सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी-ग्रेड (C-Grade) (न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक) व न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी। अतः परीक्षार्थी अपनी योग्यता की जाँच कर ही परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु ABC ID आवश्यक है। अतः विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी., आधार कार्ड नम्बर व ABC ID दर्ज करें, गलत सूचना दर्ज की जाने पर आवेदन पत्र निरस्त की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट www.uniraj.ac.in and www.univraj.org पर उपलब्ध हैं। परीक्षा संबंधी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट "अ, ब एवं स" देखें। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हैंडबुक के संबंधित अधिनियम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें।
- परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने के पश्चात् 24 घंटे की समयावधि में पोर्टल पर **Payment Verify** की जाँच करने पर यदि **Payment Not Success** होता है (भुगतान नहीं होता है) तब पुनः (दुबारा) भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। निर्धारित समयावधि से पूर्व अतिरिक्त भुगतान की जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापस (Refund) नहीं होगा।
- यदि Payment Success के उपरान्त भी यदि आवेदक जानबूझकर एक से अधिक परीक्षा आवेदन के लिए भुगतान किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, तथा विश्वविद्यालय में जमा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क वापस (Refund) नहीं होगा।
- परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा आवेदन पत्र तथा नामांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर मय आवश्यक दस्तावेजों तथा पूर्व में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं के साथ आगामी दो कार्य दिवसों में, संबंधित महाविद्यालय/विभाग में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र को स्वीकार नहीं होगा। अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा सह नामांकन आवेदन पत्र जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र ही स्वीकार होंगे।
- संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी स्पष्टतया नोट करें कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं को एक बार ही नामांकन संख्या आवंटित की जाती है, भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में आवंटित की गयी नामांकन संख्या पूर्ववत (Same as already allotted) रहेगी।
- स्नातक (कला/विज्ञान) परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- परीक्षार्थी एक समय में केवल एक ही पूर्ण सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होगा।
- परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाइन नम्बर 7726953531, 9251198577 अथवा टोल फ्री नम्बर 18001806433 एवं आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प लाइन नम्बर 9372505528 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

28/10/25
परीक्षा नियंत्रक
कृ.पू.उ.
811

क्रमांक : परीक्षा / 2025 / 1165-75
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

दिनांक: 28-10-2025

1. (अ) समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित करें कि नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्रों की अलग-अलग प्रति/हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों सहित विशेष रूप से राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न हैं एवं सही है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
- (ब) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर) हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।
- (स) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा आवेदन पत्र एवं नामांकन पत्र का अग्रेषण का शुल्क रु. 8/- प्रति छात्र देय होगा, बिन्दु संख्या-1(अ) की पूर्ण पालना नहीं करने पर देय शुल्क राशि में से कटौती होगी।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि सत्र 2025-26 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconciliation करवाने का श्रम करें।
4. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची उपलब्ध सीटों सहित संबंधित कम्प्यूटर फर्म को भिजवाने का श्रम करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जयपुर एवं दौसा में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
6. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई, बैंक, बापू नगर ब्रांच, विश्वविद्यालय केम्पस, जयपुर को भेजकर लेख है कि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से जमा परीक्षा शुल्क का Real Time Integration प्रक्रिया अपनाते हुये उसकी जानकारी संबंधित परीक्षा फॉर्म भरवाने वाली कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित करें। यदि किसी परीक्षार्थी का भुगतान Real Time Integration प्रक्रिया में सफल ना होने पर तत्काल रिफंड करें जिससे परीक्षार्थी/विश्वविद्यालय फीस रिफंड हेतु अनावश्यक परेशान ना हो।
7. वरिष्ठ निजी सहायक माननीया कुलगुरु/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक -द्वितीय/सेलर-1,11/परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


 सहायक कुलसचिव (परीक्षा)




राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार स्नातक प्रथम नियमित, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के स्वयंपाठी परीक्षार्थी परीक्षा-2026 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

1. सेमेस्टर परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी अधिसूचना (Notification) नम्बर 35 का अवलोकन कर ही परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
2. स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नियमित छात्र/छात्राओं का नामांकन/पंजीकरण कार्यालय आदेश क्रमांक: परीक्षा-6-अ/2025/974-82 दिनांक 18.07.2025 के अनुसार किया जावेगा व छात्र को आवंटित रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर परीक्षा फॉर्म भरा जावेगा।
3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। नियमित छात्रों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर अन्त में परीक्षा (EoSE) में पात्रता हेतु सतत मूल्यांकन में सी-ग्रेड (40 प्रतिशत) अंक भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
4. सम्बन्धित प्राचार्य अपने स्तर पर 40 प्रतिशत अंक व 75 प्रतिशत उपस्थिति के सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें। यदि किसी विद्यार्थी के अग्रेषित परीक्षा आवेदन पत्र में उपरोक्त त्रुटि पाये जाने पर महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही कर पेनल्टी लगायी जा सकती है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन भरने हेतु ABC ID आवश्यक है। अतः छात्र निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाईल नम्बर, ABC ID व आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
6. सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट www.univraj.org पर अपनी ABC ID के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करते हुये संबंधित कक्षा की श्रेणी यथा नियमित/स्वयंपाठी का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
7. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारिणी तथा परीक्षा आयोजन संबंधी अन्य जानकारीयों हेतु वेबसाइट www.uniraj.ac.in and www.univraj.org का निरंतर अवलोकन करते रहें।
8. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान होने की सूचना मिलने पर भुगतान का अपडेट सुनिश्चित किये जाने पर (Payment Verify) ही पुनः भुगतान 12 घंटे पश्चात् ही किया जावे। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापिस (Refund) नहीं होगा।
9. परीक्षा फॉर्म दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सावधानीपूर्वक भरें। परीक्षा फॉर्म व नामांकन/योग्यता फॉर्म (परीक्षार्थी के राजस्थान विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकित नहीं होने की स्थिति में) की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर मय आवश्यक दस्तावेजों तथा पूर्व में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं के साथ आगामी दो कार्य दिवसों में, परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं हो होगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फॉर्म जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार होंगे।
10. संबंधित महाविद्यालय परीक्षा सह नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करेगा जिसके अन्तर्गत यह स्पष्टतया उल्लेख किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा कुल प्रवेशित छात्र/छात्रायें तथा परीक्षा फार्मों की संख्या महाविद्यालय को आवंटित सीटों से अधिक नहीं है तथा विद्यार्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे गये विषयों का मिलान महाविद्यालय को आवंटित विषयों तथा विद्यार्थियों को प्रदान किये गये विषय संयोजन (Subject Combinations) से मिलान कर लिया है तथा सभी विद्यार्थियों न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के साथ मिडटर्म परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिये हैं। इन तथ्यों का स्पष्टतया सत्यापन करने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय को नियत तिथि तक अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
11. स्नातक (कला/विज्ञान) विषय की परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट www.uniraj.ac.in and www.univraj.org पर कराना होगा। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
12. फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म व नामांकन/योग्यता फॉर्म (परीक्षार्थी के राजस्थान विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकित नहीं होने की स्थिति में) की हार्ड कॉपी का प्रिंट निश्चित रूप से प्राप्त करें। परीक्षार्थी ध्यान रखें की परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं हो या आपके विवरण से मिलान नहीं हो तो पूर्व में भरे गये फॉर्म को निरस्त मानते हुये पुनः नया परीक्षा फॉर्म भरें तथा परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएँ सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।

1

Asa

Signature

Signature

13. परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। परीक्षार्थी अपना नाम, पिता व माता का नाम बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिकाओं के अनुसार ही भरें।
14. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थायी/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परीक्षा शुल्क के अलावा अन्य सभी निर्धारित शुल्क देय होगा।
15. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म में बदलाव संभव नहीं होगा।
16. नियमित विद्यार्थी अपने नामांकन सह परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित विद्यार्थी हैं वहाँ जमा करवायें एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी नजदीकी राजकीय महाविद्यालय का चयन कर नामांकन सह परीक्षा फॉर्म भरें तथा उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ चयनित राजकीय महाविद्यालयों में जमा करवायें।
17. महाविद्यालयों के नियमित/पूर्व परीक्षार्थियों एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय निर्धारित होगा। परीक्षा केन्द्र की सूचना परीक्षार्थियों के परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध होगी।
18. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा/नामांकन फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
19. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।
20. राजस्थान बोर्ड/राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी नामांकन फार्मों की हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाएँ साथ संलग्न करें।
21. महाविद्यालयों द्वारा लॉगिन आई.डी. का निर्माण, फॉर्म चैकिंग, नामांकन व परीक्षा फार्मों की कक्षावार/संकायवार सूची आदि से संबंधित आवश्यक निर्देशों यथा महाविद्यालय लॉगिन आई.डी./ई.मेल आई.डी. का वेबसाइट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर अवलोकन करें।
22. परीक्षा सह नामांकन फॉर्म का संबंधित महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर सत्यापन (Verified) करके उनकी सूची का प्रिंट पोर्टल से लेकर उस सूची में अंकित क्रमानुसार प्रत्येक परीक्षा सह नामांकन फॉर्म पर अंकित कर उन्हें कक्षावार व्यवस्थित कर परीक्षा सह नामांकन फार्मों को मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाओं के साथ सूची सहित दिनांक 20.11.2025 तक विश्वविद्यालय में नामांकन शाखा (कमरा नं. 118) में आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त परीक्षा सह नामांकन फॉर्मों पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जावेगा।
23. परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 7726953531 अथवा टोल फ्री नम्बर 18001806433 एवं आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प लाईन नम्बर 9372505528 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
24. कार्यालय आदेश क्रमांक: Exam. IV-A/V-A, B/2025/1772 dated 31.05.2025 के अनुसार (NEP-2020) सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है:-

Examination Fees Schedule

S.No.	Class	Fees prescribed	PH Candidates Fees
1	Regular Students	1760/- each semester	520/- each semester
2	Non-Collegiate Students	6120/- for both Semesters	3070/- for both Semesters

Note:- In addition to above fee schedule following fees shall also be charged:-

- 1- Practical Fee @ Rs. 210/- per paper for Regular and Non-Collegiate category students.
 - 2- Enrollment Fee Rs. 410/- from Rajasthan Board Students and Rs. 820/- from other than Rajasthan Board Students.
 - 3- Practical Training Fees of Rs. 1500/- per subject (for both semesters) shall be charged from Non-Collegiate Students belong to Science Faculty, whereas Rs. 1000/- per paper (for both semesters) shall be charged from the same category students belong to other than Science faculty.
25. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम -199 G1 से G21 (Notification No. 35) का अवलोकन करें:- परिशिष्ट-अ








-156- परिशिष्ट - 35

UNIVERSITY OF RAJASTHAN JAIPUR

NOTIFICATION No. 35

No. F. 2(6)/Acad.I/2025/

Dated :

The Syndicate at its special meeting held on 29.08.2025 has approved the following new Ordinances related to NEP-2020 :-

- (I) Ref.: Academic Council Res. No. 18 dated 13.08.2025 and Syndicate Res. No. 19-1.1 dated 29.08.2025.

The following new Ordinances be added after Ordinances 199-F.

1. New Ordinance (Ord. 199 G.1 to Ord. G.21) related to NEP-2020 implementation in Under Graduate Courses in the Faculties of Arts/Commerce/Fine Arts/Science/Social Science.

NEW ORDINANCES RELATED TO NEP-2020 IMPLEMENTATION IN UNDERGRADUATE COURSES IN THE FACULTIES OF ARTS / COMMERCE / FINE ARTS / SCIENCE / SOCIAL SCIENCE

O.199G1: The examination of Regular and Non-Collegiate students of three/four-year undergraduate programmes in the Faculties of Arts / Commerce / Fine Arts / Science / Social Science of the University, admitted in the academic session 2023-24 and after, shall be as per the UGC "Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes" under NEP 2020. The ordinances which were in force before the academic session 2023-24 shall be applicable for non-collegiate students (wherever permissible) and students admitted before the academic session 2023-24 only. From Academic Session 2023-2024, Ordinances O.199G1 to O.199G21 shall have an overriding effect over other ordinances for programmes leading to an Undergraduate programme in the faculties of Arts / Commerce / Fine Arts / Science / Social Science.

O.199G2: Definitions, Eligibility, and Duration of the Programme :

(a) Semester/Credits:

- A semester comprises 90 working days, and an academic year shall be divided into two semesters.
- A summer term shall be eight weeks during summer vacation. Internship/ apprenticeship/work-based vocational education and training can be carried out during the summer term, especially by students who wish to exit after two semesters or four semesters of study.

(b) Eligibility Criteria:

To be eligible for admission to the undergraduate program, candidates shall fulfil the following criteria:

1. **Educational Qualifications:** Candidates shall have completed their higher secondary education (12 years of schooling) or an equivalent examination from a recognized board or institution.



2. **Minimum Marks:** Candidates shall have obtained the minimum required marks or grades in the qualifying examination as specified by the university and the respective program of study.
3. **Subject Requirements:** Depending on the chosen program, candidates shall be required to have studied specific subjects in their qualifying examination.

(c) Duration of the Programme:

- i. The duration of the UG programme is 4 years or 8 semesters. Students who desire to undergo a 3-year UG Programme shall be allowed to exit after completion of the 3rd year. If a student wants to leave after the completion of the first or second year, the student shall be given a UG Certificate or UG Diploma, respectively, provided they secure the prescribed number of credits (as given in Table 1). Students who exit with a UG certificate or UG diploma shall be permitted to re-enter within three years and complete the degree programme.
- ii. Students shall be permitted to take a break from the study during the period of study (Academic holiday) but the total duration for completing the programme shall not exceed 7 years.

(d) Contact Hours:

Each Semester shall be of 15 Weeks

L – Lecture	(1 Credit = 1 Hour/Week)
T – Tutorial	(1 Credit = 1 Hour/Week)
S – Seminar	(1 Credit = 2 Hours/Week)
P – Practical/Practicum	(1 Credit = 2 Hours/Week)
F – Field Practice/Projects	(1 Credit = 2 Hours/Week)
SA – Studio Activities	(1 Credit = 2 Hours/Week)
I – Internship	(1 Credit = 2 Hours/Week)
C – Community Engagement and Service	(1 Credit = 2 Hours/Week)

(e) Major and Minor disciplines:

Major discipline is the discipline or subject of main focus, and the degree shall be awarded in that discipline. Students shall secure the prescribed number of credits through core courses in the major discipline.

Minor discipline helps a student to gain a broader understanding beyond the major discipline

O.199G3:Ability Enhancement, Skill Enhancement, Value Added and Multidisciplinary / Interdisciplinary Courses:

- (a) **Ability Enhancement Courses** To supplement the core curriculum, a range of Ability Enhancement Skill Enhancement Courses shall be offered by the University as per UGC guidelines. The aim of **ability enhancement courses (AEC)** is to develop competency in both Hindi and English. These courses focus on critical reading, expository and academic writing skills, and the recognition of language as a mediator of knowledge and identity. Additionally, they provide cultural and intellectual insights into the chosen MIL and English language and emphasize the development of communication skills, including participation in discussions and debates.
- (b) **Skill Enhancement courses (SEC)** aim to develop students' domain-specific skills, enhance their employability, and foster a spirit of entrepreneurship. The specific courses offered (As approved by the CoC of SEC) may vary from year to year, and students shall be notified on the university's website to ensure that they have access to the latest and most relevant knowledge and skills.
- (c) **Value-Added Courses:** The value-added courses are alongside the academic curriculum to emphasize the importance of holistic development and the nurturing of well-rounded individuals. These courses provide students with additional skills and experiences. They

CP
J

include Understanding India, Environmental science/education, Courses in cutting-edge areas, Courses related to Health & Wellness, Yoga education, and engagement in activities such as the National Cadet Corps (NCC), National Service Scheme (NSS), social work, Anandam Program, and sports. Participation in these activities fosters personal growth, leadership qualities, teamwork, discipline, and a sense of social responsibility. The specific courses offered may vary each year and shall be communicated through the university's website, as approved by the Committee of Courses for Value-Added Courses (CoC).

- (d) Multidisciplinary / Interdisciplinary Courses:** The undergraduate program includes introductory-level courses that aim to broaden students' intellectual experience and contribute to a liberal arts and science education. These courses are mandatory for all undergraduate students and cover various broad disciplines. **Students shall not be allowed to choose or repeat courses that they have already taken at the higher secondary level and as major/minor disciplines during the programme.**

The broad disciplines for the introductory-level courses are as follows :

- i. **Natural and Physical Sciences:** Students can choose basic courses from disciplines such as Biology, Botany, Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Biophysics, Astronomy and Astrophysics, Earth and Environmental Sciences, and more.
- ii. **Mathematics, Statistics, and Computer Applications:** These courses provide students with tools and techniques applicable to their major and minor disciplines. The courses may involve training in programming software like Python and applications software like STATA, SPSS, Tally, etc. These courses are beneficial for data analysis and the application of quantitative tools in science and social science.
- iii. **Library, Information, and Media Sciences:** Courses in this category focus on recent developments in information and media science, including journalism, mass media, and communication.
- iv. **Commerce and Management:** These courses cover areas such as business management, accountancy, finance, financial institutions, fintech, and more.
- v. **Humanities and Social Sciences:** This category includes courses related to Social Sciences, such as Anthropology, Communication and Media, Economics, History, Linguistics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, and more. These courses help students understand individuals, social behaviour, society, and the nation. The humanities courses cover subjects like Archaeology, History, Comparative Literature, Arts & Creative expressions, Creative Writing and Literature, languages (s), Philosophy, and interdisciplinary courses. Interdisciplinary subjects like Cognitive Science, Environmental Science, Gender Studies, Global Environment & Health, International Relations, Political Economy and Development, Sustainable Development, Women's and Gender Studies, etc., provide insights into society.

O.199G4: Medium of instruction and Examination shall be Hindi or English

O.199G5: Multiple Exit and Multiple Entrance Policy

- (a) UG Certificate:** Students who opt to exit after completion of the first year and have secured 52 credits shall be awarded a UG certificate if, in addition, they complete one internship of 4 credits during the summer vacation of the first year. These students shall be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

- (b) **UG Diploma:** Students who opt to exit after completion of the second year and have secured 104 credits shall be awarded the UG diploma if, in addition, they complete one internship of 4 credits during the summer vacation of the first year/second year. These students shall be allowed to re-enter within three years and complete the degree programme within the maximum period of seven years.
- (c) **3-year UG Degree:** Students who wish to undergo a 3-year UG programme shall be awarded a UG Degree in the Major discipline after completing three years, securing 150 credits and satisfying the minimum credit requirement as given in O.199G6.
- (d) **4-year UG Degree (Honours):** A four-year UG Honours degree in the major discipline shall be awarded to those who complete a four-year degree programme with 200 credits and have satisfied the credit requirements as given in O.199G6.
- (e) **4-year UG Degree (Honours with Research):** Students who secure 75% marks and above in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They shall do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the University/College. The research project/dissertation shall be in the major discipline. The students who secure 200 credits, including 12 credits from a research project/dissertation, are awarded a UG Degree (Honours with Research).

O.199G6: Minimum Credit Requirement:

To ensure the comprehensive development of students, a minimum credit requirement for the successful completion of the Three-year/four-year undergraduate program has been established. This requirement ensures that students obtain the necessary depth and breadth of knowledge across core and elective courses, enabling them to acquire a well-rounded education.

Table-1: Minimum Credit Requirements to Award Degree Under Each Category –

S. No.	Broad Category of Course	Minimum Credit Requirement	
		3 Year UG	4 Year UG
1.	Major (Core) (MJR)	72	96
2.	Minor (Stream) (MNR)	36	50
3.	Multidisciplinary (MDC)	12	12
4.	Ability Enhancement Courses (AEC)	08	08
5.	Skill Enhancement Course (SEC)	10	10
6.	Value Added Course Common for all UG (VAC)	08	08
7.	Summer Internship (IC)	04	04
8.	Research Project/ Dissertation (PRJ)	-	12
	Total	150	200

Note: Honours students (fourth-year students of a UG Programme) not undertaking research shall do 3 courses for 12 credits in place of a research project / Dissertation.

O.199G7: Undergraduate Programme Framework:

I Year	Semester	Year										
		Semester										
		Subject/Discipline 1	Subject/Discipline 2	Subject/Discipline 3	Subject/Discipline 4	Ability Enhancement Courses/AEC	Skill Enhancement Courses/SEC	Value Added Courses	Summer Internship	Research Project / Dissertation	Minimum Credit for the Semester	Cumulative minimum credit required for certificate/diploma / degree
I	I	Major	Major	Major/Minor	Multidisciplinary	AEC	SEC	VAC				
	II	Own Faculty	Own Faculty	Own Faculty/ Other Faculty	Other Faculty							
I	I	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2		Hindi-I (2) English-I(2)	SEC1 (2)	VAC1 (2)			26	52(+4)
	II	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2		Hindi-II (2) English-II(2)	SEC2 (2)	VAC2 (2)	credit (4)required for Exit		26	

UG Certificate		Students who opt to exit after completion of the first year and have secured 48 credits shall be awarded a UG certificate. If, in addition, they complete one internship of 4 credits during the summer vacation of the first year.										52(+4)
II Year	III	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(4) Th-4 or Th - 2 + Pr - 2		SEC3 (2)	VAC3 (2)	(4) credit required for Exit		26	52(+4)
	IV	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(4) Th-4 or Th - 2 + Pr - 1		SEC4 (2)	VAC4 (2)			26	
UG Diploma		Students who opt to exit after completion of the second year and have secured 96 credits shall be awarded the UG diploma if, in addition, they complete one internship of 4 credits during the summer vacation of the first year/second year.										104(+4)
III Yea	V	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(4) Th-4 or Th - 2 + Pr - 1				(4) credit required		22	42(+4)

Tuesday, 22 October 2024

Page 5 of 29

	VI	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 4 or Th - 2 + Pr - 2			SEC5 (2)				20	
UG Degree		Students who wish to undergo a 3-year UG programme shall be awarded UG Degree in the Major discipline after successful completion of three years, securing 146 credits and satisfying the minimum credit requirement, if, in addition, they complete one internship of 4 credits during the summer vacation of the first year/second year/third year.										146(+4)
IV Year Hons.	VII	(6) 1. TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2 (4) 2. Th - 4	(6) 1. TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2 (4) 2. Th - 4	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2							26	50
	VIII	(6) 1. TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2 (4) 2. Th - 4	(6) 1. TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2 (4) 2. Th - 4	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2 (2) 2. Th - 2							24	

UG Degree (Hons.) Total		Students shall be awarded UG Degree (Honours) in the relevant Discipline/Subject provided they secure 200 credits										200
IV Year Hons. + Research	VII	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2							18	38+12
	VIII	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2	(6) TH - 6 or Th - 4 + Pr - 2 (2) 2. Th-2						12	20	
UG Degree (Hons.) + Research Total		Students shall be awarded UG Degree (Honours) with Research in the relevant Discipline/Subject provided they secure 200 credits										200

Note:

1. In the case of the arts Faculty, all three cannot be Language Disciplines/Subjects.
2. Students cannot take the same courses studied in the 11th and 12th classes under the interdisciplinary/ Multidisciplinary Courses.
3. 40 % of the credits in any category may be earned through online courses approved by the University, Department and Institution as per existing UGC regulations.

O.199G8: In case of an elective course, the minimum seats to be filled for running the course shall be fifteen (15).

O.199G9: Learning Assessment and Evaluation Methodology:

The University shall adopt a continuous and comprehensive assessment approach to monitor students' academic progress and provide timely, constructive feedback aimed at enhancing learning outcomes. Assessment methods shall include, but are not limited to, regular assignments, quizzes, examinations, presentations, projects, and research papers. These methods are designed not only to evaluate the students' understanding of course content but also to assess their analytical abilities, communication skills, and capacity to apply knowledge in practical and real-world contexts.

Each course under the Semester Grade Point Average (SGPA) system shall comprise two components:

- **Continuous Assessment (CA):** Constituting 20% of the total weightage, based on internal evaluations conducted throughout the semester.
- **End of Semester Examination (EoSE):** Constituting 80% of the total weightage, based on a formal written examination conducted at the end of the semester. Both components shall be mandatory and contribute to the final grade of the student in each course.

O.199G10:a. Distribution of Continuous Assessment (CA) Marks shall be as under-

S. No.	CATEGORY	Weightage (Out of total internal marks)		THEORY					PRACTICAL		
				Major/Minor (Only Theory)	Major/Minor (Th. + Prac.)	AEC	SEC	VAC	Major/Minor (Th. + Prac.)	SEC	VAC
	Max Internal Marks			30	20	20	10	10	10	10	10
1	Mid-term Exam	50%		15	10	10	5	5	5	5	5
2	Assignment	25%		7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	Attendance	25%		7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		Regular Class Attendance	= 75%	3	2	2	1	1	1	1	1
			75-80%	4	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
			80-85%	5	4	4	2	2	2	2	2
			> 85%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

- Continuous assessment shall be the sole responsibility of the teacher concerned.
- For continuous assessment, no remuneration shall be paid for paper setting, Evaluation, Invigilation, etc.
- For continuous assessment, Paper setting and Evaluation responsibility shall be of the teacher's concern.
- For continuous assessment, no Answer sheets/question papers, etc. shall be provided by the University.
- Colleges are advised to keep records of Continuous assessment. attendance, etc., for a minimum period of 7 years
- For students registered in the first semester of a UG Programme in the Academic Session 2025-2026 and thereafter, the distribution of Continuous Assessment (CA) marks shall be as follows:

S. No.	CATEGORY	Weightage (out of total internal marks)	THEORY				PRACTICAL		
			Major/Minor	AEC	SEC	VAC	Major/Minor	SEC	VAC
	Max Internal Marks	100 %	100	50	50	50	50	50	50
1	Sessional / Mid-term test	80%	80	40	40	40	40	40	40

-152-

2	Internal Assessment	20%	20	10	10	10	10	10	10
---	---------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

O.199G11: Scheme of Examination for Undergraduate Programme

A. For students registered in the first Semester of a UG Programme in the Academic Session 2023-2024 and Academic Session 2024-2025

- a. 1 credit = 25 marks for examination/evaluation
- b. Continuous assessment, in which sessional work and the terminal examination shall contribute to the final grade. Each course in Semester Grade Point Average (SGPA) has two components- Continuous assessment (20% weightage) and End-of-Semester examination (EoSE (80% weightage).
- c. Sessional work shall consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the courses of study.
- d. 75% Attendance is mandatory for appearing in EoSE.
- e. To appear in the EoSE of a course/subject student must appear in the midsemester examination and obtain at least a "C" grade in the course/subject.
- f. Credit points in a Course/Subject shall be assigned only if the student obtains at least a "C" grade in Continuous Assessment (CA) and EoSE examination of a Course/Subject.
- g. Scheme of the Examination for subjects having theory and practical:
 - (i) Each Paper of EoSE shall carry 80% of the total marks of the course/subject. The EoSE shall be of 3 hours duration.
 - Part-A of the paper shall have multiple questions of equal marks. This first question shall be based on knowledge, understanding, and applications of the topics/texts covered in the syllabus.
 - Part B of the paper shall consist of 4 questions with an internal choice of each. The four questions shall be set with one from each of the units, with internal choice. Third to fourth questions shall be based on applications of the topics/texts covered in the syllabus (60 % weightage) and shall involve solving Problems (40% weightage) if applicable.
- h. Scheme of the Examination for subjects having six credit theory only:
 - (i) Each Paper of EoSE shall carry 80% of the total marks of the course/subject. The EoSE shall be of 3 hours duration.
 - Part-A of the paper shall have multiple questions of equal marks. This first question shall be based on knowledge, understanding and applications of the topics/texts covered in the syllabus.
 - Part B of the paper shall consist of 2 questions with an internal choice of each. The questions shall be set with one from each of the units.
 - Part C of the paper shall consist of 4 questions with an internal choice of each. The four questions shall be set with one from each of the units with internal choice. Third to fourth questions shall be based on applications of the topics/texts covered in the syllabus (60% weightage) and shall involve solving Problems (40% weightage) if applicable.

B. For students registered in the first semester of the UG Programme in the Academic Session 2025-2026 and thereafter

- a. Continuous assessment and the End of Semester examination (EoSE) shall contribute to the final grade. Each course in the Semester Grade Point Average (SGPA) has two components: Continuous Assessment (20% weightage) and End-of-Semester Examination (EoSE) (80% weightage).
- b. The internal assessment component will comprise an assessment of students' performance based on factors like Attendance, Classroom Participation, Quiz, Home Assignment, etc. The sessional/midterm test shall be conducted on the coverage of 50% of the course content specified in the syllabus.
- c. Sessional work shall consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the courses of study.
- d. 75% Attendance is mandatory for appearing in EoSE.
- e. To appear in the EoSE of a course/subject student must appear in the midsemester examination and obtain at least a "C" grade in the course/subject.
- f. Credit points in a Course/Subject shall be assigned only if the student obtains at least a "C" grade in Continuous Assessment (CA) and EoSE examination of a Course/Subject.
- g. Each theory paper EoSE shall carry 100 marks. The EoSE will be of 3 hours duration. Part 'A' of the theory paper will contain 10 short answer questions of 20 marks, based on knowledge, understanding and applications of the topics/texts covered in the syllabus. Each question will carry two marks for a correct answer.
- h. Part "B" of the paper will consist of four questions (with internal choice) from each section of the Syllabus. The word limit for each answer will be 1000 words. Except in cases where a different scheme is specifically specified in the syllabus.
- i. Each Laboratory EoSE shall carry 50 marks. Each Laboratory EoSE will be four. Six-hour durations and involve laboratory experiments/exercises, and vivavoce examination with a weightage in the ratio of 75:25.

O.199G12: Rules for Promotion

1. All students registered in Odd Semesters (First, Third, Fifth and Seventh) shall be promoted to the corresponding Even Semesters (Second, Fourth, Sixth and Eighth)
2. For students admitted in the first year:
 - I. Every student shall be promoted from the first semester to the second semester
 - II. In the first year, the student shall earn 52 or 56 credits by-

S. No.	Semester	Major Discipline Credit	Major/Minor Discipline Credit	Multidisciplinary Courses Credit	AEC Credit	SEC Credit	VAC Credit	Internship	Total Credit
1	I	2 x 6 = 12	1 x 6 = 6	0	2x2 = 4	1x2 = 2	1x2 = 2	4 credits required for exit	26
2	II	2 x 6 = 12	1 x 6 = 6	0	2x2 = 4	1x2 = 2	1x2 = 2		26
I - Year		24	12	0	8	4	4	(+4)	52(+4)

- 151
- III. If a student secures a **minimum of 52 credits** in the first year, he/she shall be promoted with the remark **"PROMOTED"** in the second year. If he/she wants to exit after the first year with a **"CERTIFICATE OF FACULTY/DISCIPLINE"** then a **minimum of 52 credits from the course and 4 credits from the internship** shall be earned.
 - IV. If the minimum number of credits acquired by the student in the first year is less than 52, then- on securing a minimum of 18 credits (50% of total credits 36 in core subjects) and a minimum of 26 credits (50% of total credits 52) in the first year shall be promoted with the remark **"BACK PROMOTED"**. In his second year, he can again earn the required credits by appearing in the relevant subjects/courses of the first and second semesters, provided he/she obtained a **"C"** grade in the continuous assessment.
 - V. Otherwise, the student shall be **awarded** the remark **"NOT PROMOTED"**.
 - VI. In any year, the student cannot appear in all the examinations of any one semester of the previous year.
 - VII. The maximum period to complete the first year is three years, and for this, the student must have earned a minimum of 52 credits.
 - VIII. If a student (**"NOT PROMOTED"**) has passed all the Continuous Assessments in their courses with at least a C grade (40%), he/she shall not be required to take re-admission. The student can directly appear for the due papers in the examinations for that particular semester.
 - IX. However, if a student (**"NOT PROMOTED"**) has not cleared one or more Continuous Assessments with a minimum of a C grade (40%), they shall be required to take re-admission for that specific semester(s).
 - X. A student with a remark **"BACK PROMOTED"** in the first year-
 - If he/she has secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the Continuous Assessment of all courses in the First and/or Second Semester; but has not secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the corresponding End-of-Semester Examination (EoSE), shall be permitted to register for such course(s) as a Self-Study Course and appear in the EoSE along with the examinations of the III/IV semester i.e. I Semester Course EoSE with III Semester and II Semester course EoSE with IV Semester.
 - A student who has not secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the Continuous Assessment of one or more courses in the First and/or Second Semester shall be required to repeat the concerned semester for the respective course(s). Such repetition shall be undertaken either after the completion of the IV Semester or before admission to the III Semester.

3. For students admitted in the Second year :

- I. Every student shall be promoted from the third semester to the fourth semester
 - II. In the second year, the student shall earn **52 or 56 credits-**
- P
X

S. No.	Semester	Major Discipline Credit	Major/Minor Discipline Credit	Multidisciplinary Courses Credit	AEC Credit	SEC Credit	VAC Credit	Internship	Total Credit
1.	III	2 x 6 = 12	1 X 6 = 6	1x4 = 4	0	1x2 = 2	1x2 = 2	4 Credit	26
2.	IV	2 X 6 = 12	1 X 6 = 6	1x4 = 4	0	1x2 = 2	1x2 = 2	required for exit	26
II - Year		24	12	8	0	4	4	(+4)	52(+4)

III. Student with "PROMOTED" remark in the first year

- If a student secures a **minimum of 52 credits** in the second year, he/she shall be promoted with the remark "**PROMOTED**" in the third year. If he/she wants to exit after the second year with "**DIPLOMA IN FACULTY/DISCIPLINE**", then a **minimum of 52 credits** from the courses and **4 credits** from the internship shall be earned.
- A Summer Internship of 4 credits is mandatory after Semester 4th semester for all students.
- If he/she is not able to secure the minimum credits of 52 in the Second year then -
 - (a) On securing a minimum of 18 credits (50% of total credits, 36 in core subjects) and a minimum of 26 credits (50% of total credits, 52) in the second year shall be promoted with the remark "**BACK PROMOTED**". In his third year, he can again earn the required credits by appearing in the relevant subjects of the third and fourth semesters.
 - (b) Otherwise, the student shall be **awarded** the remark "**NOT PROMOTED**".

IV. A student with the remark "BACK PROMOTED" in the first year if-

- Earns the required credits (total 52) of the first year and also the minimum 52 credits of the current year, then he/she shall be promoted to the third year with the remark "**PROMOTED**". If he/she wants to exit after the second year with a "**DIPLOMA IN FACULTY/DISCIPLINE**", then a **minimum of 52 credits** from the course and **4 credits** from the internship shall be earned.
- If he/she is not able to earn the required credits (total 52) of the first year, then he/she shall not be promoted from the second year to the third year until he/she earns the total credits of the first year's 52. That is, for promotion from the second year to the third year, the student shall have earned all the credits in the first year and in the second year, by securing at least **18 credits in the core subjects** and at least **26 credits in the current year**, in both the semesters combined (i.e. III & IV), shall be promoted to third year with the remark "**BACK PROMOTED**".

V. Otherwise, the **EX-STUDENT** shall be there with the remark "**NOT PROMOTED**".

VI. In any year, the student cannot appear in all the examinations of any one semester of the previous year

P
X

VII. The maximum period to complete the second year, i.e. "DIPLOMA IN FACULTY/DISCIPLINE" degree, is three years, and for this, the student must have earned a minimum of 104 credits and 4 credits from the internship Note :

1. If a student ("NOT PROMOTED") has passed all the Continuous Assessments in their courses with at least a C grade (40%), they are not required to take re-admission. The student can directly appear for the due papers in the examinations for that particular semester.
2. However, if a student ("NOT PROMOTED") has not cleared one or more Continuous Assessments with a minimum of C grade (40%), they shall be required to take re-admission for that specific semester(s).

VIII. A student with a remark "BACK PROMOTED" in the second year-

- If he/she has secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the Continuous Assessment of all courses in the Third and/or fourth Semester, but has not secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the corresponding End-of-Semester Examination (EoSE), shall be permitted to register for such course(s) as a Self-Study Course and appear in the EoSE along with the examinations of the V/VI semester i.e. III Semester Course EoSE with V Semester and IV Semester Course EoSE with VI Semester.
- A student who has not secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the Continuous Assessment of one or more courses in the third and/or fourth semester shall be required to repeat the concerned semester for the respective course(s). Such repetition shall be undertaken either after the completion of the VI Semester or before admission to the V Semester.

4. For students admitted in the Third year :

- I. Every student shall be promoted from the fifth semester to the sixth semester
- II. In the third year, the student shall earn 42 or 46 credits-

S. No.	Semester	Major Discipline Credit	Major/Minor Discipline Credit	Multidisciplinary Courses Credit	AEC Credit	SEC Credit	VAC Credit	Internship	Total Credit
1.	V	2 x 6 = 12	1 X 6 = 6	1x4 = 4	0	0	0	4 credits required for exit	22
2.	VI	2 X 6 = 12	1 X 6 = 6	0	0	1x2 = 2	0		20
III - Year		24	12	4	0	2	0	(+4)	42(+4)

III. Student with a "PROMOTED" remark in the Second year -

- If he/she earns 150 credits (including 4 credits of internship) in all three years, he shall be promoted to the next year with the remark "PROMOTED", and he shall be eligible for the title "DEGREE IN FACULTY/DISCIPLINE" upon passing out.

- If he/she is not able to secure a minimum of 42 credits in the third year, the remark **"BACK PROMOTED"** OR **"NOT PROMOTED"** shall remain the same as in the previous year.
- IV. A student with the remark **"BACK PROMOTED"** in the second year if-
- also earns the required credits (total 48) of the second year and a minimum of 40 credits for the third year, he/she shall be promoted to the fourth year with the remark **"PROMOTED"**, and on passing out, he/she shall be awarded the title **"DEGREE IN FACULTY/DISCIPLINE"**.
 - If he/she is not able to earn the required credits (a total of 48) in the second year, then he/she shall not be promoted from the third year to the fourth year until he earns 48 total credits from the second year. That is, for promotion from the third year to the fourth year, the student must have earned all the prescribed credits of the second year and shall be promoted with the comment **"BACK PROMOTED"** on securing at least 20 credits in the main subjects in the current year.
- V. Otherwise, the student shall be awarded the remark **"NOT PROMOTED"**.
- VI. In any year, the student cannot appear in all the examinations of any one semester of the previous year
- VII. The maximum period to complete the third year, i.e. **"DEGREE IN FACULTY/DISCIPLINE"** degree, is three years, and for this, the student must have earned a minimum of 150 credits (including 4 credits of internship).

Note:

1. If a student (**"NOT PROMOTED"**) has passed all the Continuous Assessments in their courses with at least a C grade (40%), they are not required to take re-admission. The student can directly appear for the due papers in the examinations for that particular semester.
 2. However, if a student (**"NOT PROMOTED"**) has not cleared one or more Continuous Assessments with a minimum of C grade (40%), they shall be required to take re-admission for that specific semester(s).
- VIII. A student with a remark **"BACK PROMOTED"** in the third year-
- *If he/she has secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the Continuous Assessment of all courses in the fifth and/or sixth Semester, but has not secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the corresponding End-of-Semester Examination (EoSE), shall be permitted to register for such course(s) as a Self-Study Course provided he/she opted for four year degree programme, he/she may appear in the EoSE along with the examinations of the VII/VIII semester i.e. V Semester Course EoSE with VII Semester and VI Semester Course EoSE with VIII Semester examination otherwise with the next V/VI End of semester examination.*
 - *A student who has not secured a minimum of 40% marks (equivalent to Grade C) in the Continuous Assessment of one or more courses in the fifth and/or sixth*

=149-

Semester shall be required to repeat the concerned semester for the respective course(s). Such repetition shall be undertaken either after the completion of the IV Semester or before admission to the VII Semester.

5. For students admitted in 4th year (Hons. and Hons. with Research):

- I. Every student shall be promoted from the seventh semester to the eighth semester
- II. In the fourth year, the student shall earn 50 credits-

For a fourth-year Student of Hons.

S. No.	Semester	Major Discipline Credit	Major/Minor Discipline Credit	Multidisciplinary Courses Credit	AEC Credit	SEC Credit	VAC Credit	Total Credit
3.	VII	$2 \times 6 + 2 \times 4 = 20$	$1 \times 6 = 6$	0	0	0	0	26
4.	VIII	$2 \times 6 = 1 \times 4 = 16$	$1 \times 6 + 1 \times 2 = 8$	0	0	0	0	24
IV - Year		36	14	0	0	0	0	50

For a fourth-year Student of Hons. With Research

S. No.	Semester	Major Discipline Credit	Major/Minor Discipline Credit	Multidisciplinary Courses Credit	AEC Credit	SEC Credit	VAC Credit	Project/ Dissertation	Total Credit
1.	VII	$2 \times 6 = 12$	$1 \times 6 = 6$	0	0	0	0	12	18
2.	VIII	$2 \times 6 = 12$	$1 \times 6 + 1 \times 2 = 8$	0	0	0	0		20
IV - Year		24	14	0	0	0	0	12	$38 + 12 = 50$

III. Student with a "PROMOTED" remark in the third year -

- If he secures a minimum of 50 credits in the current year, he/she shall be eligible to receive the title "Bachelor of Faculty (Hons.)" or, if he/she completes the Dissertation, then "Bachelor of Faculty (Hons. With Research)".

- If he/she is not able to secure the minimum credits of 52 in the current year, the remark **"BACK PROMOTED" OR "NOT PROMOTED"** shall remain the same as in the previous year.
- IV. A student with the remark **"BACK PROMOTED"** in the previous year if-
- earns the required credits (total 150) of the previous years and a minimum of 50 credits for the fourth year, he/she shall be awarded the degree **"Bachelor of Faculty (Hons.)"** or if completes the Dissertation then **"Bachelor of Faculty (Hons. With Research)"**
 - If he/she is not able to earn the required credits (total 150) of the previous year, then he/she shall not be awarded the degree **"Bachelor of Faculty (Hons.)"** or if he/she completes the Dissertation, then **"Bachelor of Faculty (Hons. With Research)"**. That is, for the award of **"Bachelor of Faculty (Hons.)"** or if completes the Dissertation then **"Bachelor of Faculty (Hons. With Research)"**, the student must have earned the entire credits of the previous year (150 credits) and having secured 50 credits in the fourth year otherwise the remark **"BACK"** shall be there.
- V. Otherwise, the student shall be awarded the remark **"NOT PROMOTED"**.
- VI. In any year, the student cannot appear in all the examinations of any one semester of the previous year.
- VII. The maximum period for completing the fourth year i.e. title **"Bachelor of Faculty (Hons.)"** or if completed the Dissertation then **"Bachelor of Faculty (Hons. With Research)"** degree is two years and for this, the student must have earned a minimum of 200 credits.

O.199G13: Letter Grades and Grade Points:

Each course shall be assigned a letter grade based on the student's performance, which is then converted into grade points. The letter grades and grade points provide a comprehensive assessment of students' academic achievements and shall be reflected in their transcripts.

Letter Grade	Grade Point	Marks Range (%)
O (outstanding)	10	91 - 100
A+ (Excellent)	9	81 - 90
A (Very good)	8	71 - 80
B+ (Good)	7	61 - 70
B (Above average)	6	51 - 60
C (Average)	5	40 - 50
P (Pass)	4	
F (Fail)	0	
Ab (Absent)	0	

When students take audit courses, they shall be given a pass (P) or fail (F) grade without any credits.

P
X

O.199G14: Computation of SGPA and CGPA:

The Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated to measure students' overall performance. The SGPA shall be computed for each semester by taking the weighted average of the grade points earned in that particular semester, while the CGPA is calculated by considering the weighted average of grade points across all semesters. These indicators shall provide a comprehensive view of students' academic progress throughout their undergraduate journey.

Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

- i. The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits in all the courses undergone by a student, i.e.

$$SGPA (S_i) = \sum (C_i \times G_i) / \sum C_i$$

Where C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade point scored by the student in the i^{th} course.

- ii. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is also calculated in the same manner, taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

$$CGPA = \sum (C_i \times S_i) / \sum C_i$$

where S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.

Note –

1. Marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all semesters taken together shall be mentioned in the mark sheet.
2. The Letter grades, Grade Points and SGPA and CGPA shall be issued in the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

O.199G15: Rules for Skill Enhancement and Value-Added Courses

1. A college can offer value-added courses in NCC and NSS only if they have sanctioned seats in NCC and NSS from the NCC directorate and the State Government.
2. Value-added courses in NCC and NSS shall be allotted only to those students who fulfil the criteria as prescribed by the NCC directorate and the state Government.
3. Examination and degree/certificate provided by the respective bodies/directorate shall be as usual.
4. Examination conducted by the University for NCC and NSS shall be other than the examination conducted by respective bodies/directorates.
5. Colleges have to offer a minimum of four courses in each year of study from the list of SEC courses and VAC Courses offered by the university, which may change from time to time.

O.199G16: For Non-Collegiate Students –

1. Under the National Education Policy 2020 (NEP-2020), a Three/Four Year Undergraduate Semester Programme shall be available for non-collegiate students in the faculties of Arts/Social Science, Science, and Commerce.
2. Non-collegiate students shall not be subject to continuous assessments.

(a) For a Student Registered in a UG Programme prior to Academic Session 2025-2026

The marks allocated for the continuous assessments of regular students in both theory and practical papers of a particular discipline shall be incorporated into the End of Semester Examination (EoSE) of non-collegiate students. For instance, in a discipline, a regular student's EoS theory paper worth 80 marks shall be 100 marks for a non-collegiate student, and a regular student's EoS theory paper worth 120 marks shall be 150 marks for a non-collegiate student. Similarly, practical papers for non-collegiate students shall be 50 marks instead of 40 marks.

(b) For a Student Registered in a UG Programme from Academic Session 2025-2026 and after

The end-of-semester examination (EoSE) Scheme shall be the same as that of regular students, with 100% weightage in the final grade.

3. In disciplines where practical examinations are a part of the program, noncollegiate students shall be required to complete a training program at centres or colleges specified by the University. Only after completing this training at the designated centre, a non-collegiate student becomes eligible to appear for the practical EoS examination in that specific discipline as part of their study program.
4. Non-collegiate students shall be required to choose Value Added Courses (VAC), Skill Enhancement Courses (SEC) and Multidisciplinary Courses (MDC) from a list of courses offered to them by the university, which may change from time to time.
5. The Four-Year Degree Programme in all faculties shall not be offered to noncollegiate students.
6. A 120-hour (3 weeks) equivalent to 4 (four) credits Internship shall be mandatory. The guidelines for internships for non-collegiate students shall be as per the notifications issued by the University from time to time.

O.199G17:

a. List of Faculties and Codes

S. No.	Faculty Name	Faculty Code
1.	ARTS	01
2.	COMMERCE	02
3.	EDUCATION	03
4.	ENGINEERING & TECHNOLOGY	04
5.	FINE ARTS	05
6.	LAW	06
7.	MANAGEMENT	07
8.	SCIENCE	08
9.	SOCIAL SCIENCE	09

b. List of Types of Courses and Codes

S. No.	Type of Course	Code
1.	Certificate	CT
2.	Diploma	DP
3.	Post Graduate	PG
4.	Post Graduate Diploma	PD
5.	Post PG Diploma	PP
6.	Undergraduate	UG
7.	Ph.D.	PH
8.	Integrated Program	IN
9.	AEDP	AP

c. Level of Course and Codes

S. No.	Level of Course	Code Range
1.	Pre-requisite Courses	000-099
2.	Foundation or Introductory Courses	100-199
3.	Intermediate-Level Courses	200-299
4.	High-Level Courses	300-399
5.	Advance Courses	400-499
6.	First Year Master's Degree Courses	500-599
7.	Second Year Master's Degree Courses	600-699
8.	Courses limited to Doctoral Students	700-799 & above

d. NHEQF Level of Undergraduate Courses

S. No.	NHEQF Level	Semester
1.	5	I
2.	5	II
3.	6	III
4.	6	IV
5.	7	V
6.	7	VI
7.	8	VII
8.	8	VIII

O.199G18:

a. Rules for Generation of Programme Code

UG0809 - Four-Year Bachelor of Science (Physics)

The first and Second Letters indicate the type of Course. Here UG – Means Undergraduate Course Third and Fourth Digit –

Fourth Digit – 8 means Science Faculty

Third Digit – 0 Means single faculty

Programme Third Digit – 1 to 8, Second

Faculty code

Third Digit – 9 More than two Faculties Programme

Fifth and Sixth Digit – Serial No. of Program In Faculty Programme List

b. Rules for Generation of Course Code

PHY – Subject/ Discipline Three

alphabet code 5 - NHEQF Level

1 - First Semester (Can Vary from 1 to 8 as per semester)

T – Theory P- Practical/Practicum S-Seminar T-Tutorial F- Field

Practice/Projects SA – Studio Activities I – Internship C – Community Engagement and Service

Next Three-Digit Level of Course

UG0802-PHY-51T/52T-(100-150) - Foundation or Introductory Courses

UG0802-PHY-63T/64T-(200-250) - Intermediate-Level Courses

UG0802-PHY-75T/76T-(300-350) - High Level Courses

UG0802-PHY-77T/78T-(400-450)- Advance Courses

c. Rules for Generation of Course Code for AEC, SEC, VAC and Multidisciplinary/ Interdisciplinary Courses

AEC-51T-101-199 AEC-52T-101-199

SEC-51T-101-199, SEC-52T-101-199, SEC-63T-201-299, SEC-64T-201-299 SEC-76T-301-399

VAC-51T-101-199 ,VAC-52T-101-199, VAC-63T-201-299,VAC-64T-201-299 MDC-PHY-63T-101 MDC-PHY-64T-201 MDC-PHY-75T-301

Handwritten marks: a checkmark and a signature-like mark.

O.199G19: List of Undergraduate Programmes Guideline for Designing of Programme –

Sem ester	Discipline Specific Courses -Core	Major/Minor	Inter- disciplinary courses	Ability Enhancement courses (language)	Skill Enhancement courses /Internship /Dissertation	Common Value-Added Courses	Total Credits
I	(100 level)	(100 Level)		1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses)	xx
II	(100 level)	(100 Level)		(1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses)	xx
	<i>Students exiting the programme after securing xx credits shall be awarded a UG Certificate in the relevant Discipline /Subject, provided they secure 4 credits in work-based vocational courses offered during the summer term or an internship / Apprenticeship in addition to 6 credits from skill-based courses earned during the first and second semester.</i>						xx
III	(200 level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	-	xx
IV	(200 level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)		-	xx
	<i>Students exiting the programme after securing xx credits shall be awarded UG Diploma in the relevant Discipline /Subject provided they secure additional 4 credits in skill-based vocational courses offered during the first year or second year summer term.</i>						xx
V	(300 Level)	(200 & above) (300 & above)	(1 course)	-	(Internship)	-	xx
VI	(300 Level)	(200 & above) (300 & above)	-	-	-	-	xx
	<i>Students who want to undertake a 3-year UG programme shall be awarded a UG Degree in the relevant Discipline /Subject upon securing xxx credits</i>						xxx
	(400 Level)	(300 & above) (400 & above)	-	-	-	-	xx
	(400 Level)	(300 & above) (400 & above)	-	-	(Research Project/ Dissertation)	-	xx
	<i>Students shall be awarded UG Degree (Honours) with Research in the relevant Discipline /Subject, provided they secure xxx credits</i>						Xxx

O.199G20: Guidelines for Internship/Research Internship for Undergraduate Students

a. Internship Categories

(i) Category I: Enhancing employability

To minimize the gap between the knowledge from traditional learning and practical skills, so that the graduates attain the required attributes to join the workforce

C. Category II: Developing research aptitude

To provide exposure to an actual research environment and develop skills in research tools and techniques, methodologies, including policy framework, IPR, legal and ethical issues.

b. Academic Credentials & Monitoring of Internship

(i) Internship

A 4 credits, out of the required minimum 150/200 credits, of a 3-year UG degree/4-year UG degree (Honours)/4-year UG degree (Honours with Research) shall be assigned for Internship. An internship of 120 hours / 3 weeks duration after the 4th semester will be mandatory for the students enrolled in UG degree programmes.

For an internship, one credit of Internship means a two-hour engagement per week. Accordingly, in a semester of 15 weeks' duration, one credit in this course is equivalent to 30 hours of engagement in a semester.

(ii) Research Project/Dissertations/Thesis/Project work

For the 4-year UG degree programme (Honours with Research), engagement of students in the dissertations/research project during the entire

8th semester of 12 credits shall be considered as a mandatory component for the award of the degree. The students need to submit the research project/dissertations/thesis/project work to the allotted mentor. The submission of the report with the conduct of viva will also be a component for the successful evaluation of the dissertation/research project/thesis/Project work.

The dissertation/research project/thesis work should involve 360 hours' duration during the 7th and 8th semesters, and it will be mandatory for the students enrolled in UG degree programmes (Honours with Research).

c. Duration and Slots for Internship in Curriculum

Each undergraduate student may complete an internship of 4 credits after the 4th semester of the UG degree programme, focusing on Hands-on Training/Short Research Project. However, the student who has to go for a 4-year UG degree (Honours with Research) programme will be required to choose courses as given Table 1 during the 7th & 8th semester.

P
X

Table 1: Activities, Suggested Duration along with a corresponding number of credits of the Internship Programme:

S. No.	Courses	Suggested Schedule	Duration	Suggested Activities	Credits
1	• 3-year UG degree • 4-year UG degree (Honours) • 4-year UG degree (Honours with Research)	After (4th) Semester	120 hours/3 weeks	• Hands-on Training/ Short Research Project • Seminar attendance, Read assigned journals to prepare for seminars • Study certain entrepreneurs' Social projects • Study of the enterprises/ farmers	04
2	4-year UG Degree (Honours with Research)	7 th and 8 th Semester	One Semester	(i) Research Methodology, Research Tools and Techniques, Research Ability Enhancement and Policy Framework Courses (ii) Dissertation/Thesis/Project Work/Research project	08 12

Note: In a 4-year UG degree (Honours) students not undertaking research shall do 3 courses for 12 credits in lieu of a research project.

d. Internship Structure

Internships offer students hands-on learning experiences aligned with their academic and professional interests. The college shall establish a robust framework for internships, coordinated through its Research & Development (R&D) Cell.

1. Nodal Officer & MoUs:

The college shall appoint a Nodal Officer to develop sector-specific internship verticals based on local and national needs. Establish MoUs with industries, higher education institutions, NGOs, and research institutions to facilitate training and placements.

2. Identifying Internship Verticals:

Conduct local surveys to identify industry clusters and workforce demands. Suggested areas include:

- ✦ Agriculture & Trade
- ✦ BFSI (Banking, Financial Services, Insurance)
- ✦ IT & Electronics
- ✦ Healthcare & Life Sciences
- ✦ FMCG & Retail

- ✦ Arts, Design, and Music
- ✦ Sports & Wellness
- ✦ Tourism & Hospitality
- ✦ Digitization & Emerging Tech (AI/ML, IoT, AR/VR, etc.)
- ✦ Environment, Sustainability, Legal Services, Education, etc. college may refer to the National Qualification Register for job roles and explore beyond it.

3. Supervision & Mentorship:

Each intern shall be assigned a supervisor (within college) and a mentor (industry/expert) for guidance during the internship.

4. Group Internships:

College shall allow group-based projects on common themes. Proposals can be submitted to the R&D Cell for approval, followed by supervisor and mentor allocation.

5. Project Pool & Local Industry Linkage:

The college shall develop a project repository based on local industry needs and make it accessible to students via a digital portal.

6. Course Integration:

Internships shall be linked with value-added, skill-enhancement, and ability enhancement courses. These courses may act as prerequisites (backwards integration), and internships can lead to capstone projects (forward integration).

7. Digital Portal & API Integration:

A College shall build digital platforms for internship management, listing mentors, organisations, and opportunities with API readiness for central portal integration.

8. Mentor Selection:

Students shall choose mentors from higher education institutions/colleges, research labs, industry, NGOs, government, or even global professionals via networks like LinkedIn.

9. Expert Pool Registration:

Retired scientists, professionals, artisans, farmers, and entrepreneurs shall be registered as mentors. The college should work with local bodies to identify community-based projects.

10. Live Projects & Social Impact:

Internships shall involve live case studies, evaluation of government schemes, or social research projects relevant to students' disciplines.

11. Academic Continuity:

Internships shall not disrupt academic credits. Summer and winter breaks can be used to extend internships if needed.

12. Collaborative Models:

The College can form clusters (2-3 institutions) under MoUs to offer shared internship opportunities. Students can choose mentors from participating or external institutions.

13. Faculty Development:

Orientation and training programs for faculty/internship coordinators are essential.

4.e. Role of Internship: Providing Organisation, Nodal Officer, Internship Supervisor and Mentor

(i) Role of the Internship Providing Organisation

144

Internship Providing Organisation (IPO) is any organisation, HEI, philanthropy, farmer, government organisation, R&D institutions, research labs, artisans, enterprises, institution/person of eminence, cooperatives, corporates, providing an opportunity to the student for an internship during the programme

- The internship providing organisation shall connect with a nodal officer to look into the matter of facilitating the interns on arrival with registration, identity cards/ library cards/ internet subscription/ any other specific requirements, accommodation, etc.
- The mentor from the internship providing organisation needs to guide the candidate to have exposure to the research environment and the employability market.

(ii) Role of Nodal Officer

Nodal Officer is an individual who shall be nominated as a member for the organization and execution of internship opportunities in the institution. The person shall be from the Research & Development (R&D) cell of the HEI. He/she shall ensure the organization and registration of students, mentors, organisations, and internship supervisors on the HEI portal developed for internship.

- Internship Programme shall be fully organised, executed and monitored by the R&D cell of HEI through a Nodal Officer to be appointed by the Vice Chancellor/Director/Principal/Head of the Department of HEI.
- The nodal officer shall reach out to HEIs, research organisations, research labs, corporates, industry, etc. and moreover to local administrative offices like Deputy Commissioners and heads of certain government offices like labour, municipal, hospital, tourism, public relations, finance, agriculture, social welfare, etc. to seek the opportunity of an internship for the institution. For instance, the students can participate with local government in processes of census, surveys and elections and other schemes with proper mentoring mechanisms.
- The nodal officer shall take care of the interns during their stay and address their problems, if any.
- The nodal officer shall connect with the organisation and make MOUs so as to facilitate the students for an internship during the course.
- The nodal officer shall ensure the registration of students, internship supervisors, mentors and internship providing organisations in the portal

(iii) Role of Internship Supervisor

An internship supervisor is any individual who will be nominated by the institution to monitor, supervise, and evaluate the student during the internship duration.

- An Internship Supervisor shall be nominated at the start of the academic year for each batch.
- The Internship Supervisor from the host institute shall monitor the regularity of the intern at his/her workplace. Students should preferably inform the Internship Supervisor at least one day prior to availing leave during the internship, except for emergencies.
- At the end of the internship, the Internship Supervisor shall ensure the issuance of completion certificates to the intern.

- Internship offered by the organisation shall be followed by one project report, and the assessment on the evaluation can be judged based on the innovativeness of that particular project, presentation and attendance by HEI's.

(iv) Role of Mentor

A mentor is an empanelled individual professional who is identified by the HEI or by students himself/herself through their network. The mentor should be identified and his/her concurrence should be conveyed to the internship supervisor.

He/she will be providing professional/research guidance to the student during the internship. The mentors will also facilitate networking with other subject matter experts/professionals, which will enhance the internship experience and learning of the intern.

They shall be making the timely evaluation of a student and provide him completion certification/report for submission in HEI.

- The mentor needs to provide guidance to the students digitally or physically throughout the internship duration.
- The mentor needs to check and validate the performance of students fortnightly and after the completion of the internship, issue the certificate/report.
- The mentor must ensure the learning of competencies with research orientation among the students during the internship duration.
- HEIs may integrate the job assigned to faculty with workload assessment.

f. Internship Mechanism

HEIs should develop a roadmap for the smooth functioning of (i) the internship programme under the Research and Development Cell at the HEIs, (ii) the office of the nodal officer, (iii) internship portals and about roles and responsibilities of interns, supervisors and mentors, (iv) a list of projects and v) HEI and internship providing organisation may decide about Internship on mutually agreed terms and conditions. Internship outcomes should have been incorporated in developing a perspective among the candidates or students towards a profession and their ability to deconstruct a job role and to become job-ready as soon as they enter into a job or a profession.

- Students shall apply for research internships on their own or through the mentor of their parent HEI by registering at the internship portal. The HEI should ensure that such a student has an appropriate orientation for research through research ability enhancement courses as a part of the curriculum.
- Interns will be selected by host organizations based on their selection criteria. The host organization will arrange to inform the potential intern through the portal itself or through the mail and will ask for confirmation or for acceptance.
- If a student fails to get an internship in physical mode, then the host institute should have a provision for a digital or group internship.
- On receipt of an offer of internship, the student will arrange to consult the internship supervisor, obtain due permission from the parent institution and join the concerned host organization for an internship as per the suggested schedule.
- The student may undergo an internship in the supervisor's lab/ working space at the host organization. During the period of internship, the parent HEI through the

P X

143

internship supervisor and mentor, will arrange to keep track of the activities and performance of students as interns at the host organization, based on periodic reports submitted by students.

- f) On completion of the Internship, the intern will prepare an internship report and get it endorsed by the mentor.

g. Evaluation

(i) Internship

1. The parent HEI shall examine/evaluate the student's performance following its evaluation method.
2. The evaluation of the internship shall be carried out at the following stages:
 - a) The interns shall be evaluated by the research internship supervisor based on their efforts and research output.
 - b) The interns shall be evaluated through a seminar presentation or vivavoce at the HEI (marks will be given by a group of experts from HEI, including the supervisor).
3. At HEI, the intern shall be evaluated through a seminar/viva voce on his work, by a duly constituted expert committee (one Internal and one external), on the following suggestive aspects.
 - i. Activity logbook and evaluation report of Internship Supervisor
 - ii. Format of presentation and the quality of the intern's report
 - iii. Acquisition of skill sets by the intern
 - iv. Originality and any innovative contribution
 - v. Significance of research outcomes
 - vi. Attendance

(ii) Research Internship

1. Internship offered by the organisation shall be followed by one project report, and the assessment on evaluation can be judged based on
 - a. Innovativeness of Research
 - b. Presentation and,
 - c. Viva-Voce
2. The research project report shall have an undertaking from the student and a certificate from the research supervisor/mentor/advisor for originality of the work, stating that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma in the same Institution or any other Institution.
3. The viva-voce examination shall include both internal and external examiner. The HEIs need to follow their examination structure for the conduction of the examination.

h. Suggestive sectors for internship/research internship

- (i) **Category I:** The HEIs shall identify sectors as given below in which students can carry out internships (vide UGC guidelines, Feb. 2024). However, this is only a suggestive list, and the HEIs shall identify any other sector if required, subject to approval of the competent authority at the University of Rajasthan.

- A. Trade and Agriculture
- B. Economy and Banking/Financial Services and Insurance

- C. Logistics, Automotive & Capital Goods
- D. Fast Moving Consumer Goods & Retail
- E. Information Technology/InformationTechnology-enabled Services & Electronics
- F. Handcraft, Art, Design & Music
- G. Healthcare & Life Science
- H. Sports, Wellness and Physical Education
- I. Tourism & Hospitality
- J. Digitisation & Emerging Technologies (Internet of Things/Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning/Augmented Reality/Virtual Reality, etc.)
- K. Humanitarian, Public Policy and Legal Service
- L. Communication
- M. Education
- N. Sustainable development
- O. Agriculture sector-for internship in rural areas
- P. Any other rural and community-oriented sectors, including NGOs, SHGs, etc.

(ii) Category II

- A. The RDC shall liaise and identify potential mentors from different knowledge institutions across the country and abroad are willing to take interns of the respective HEIs
- B. A pool of willing faculty members shall be identified to take interns in this category at the University of Rajasthan. This dynamic list will be made available and updated at the beginning of each semester through the University of Rajasthan portal. The entire application process, acceptance by a supervisor and completion of the internships will be done through an internship module.
- C. For this purpose a limited number of internships shall be funded by the University (a nominal fellowship amount) with the condition that such internships must be carried out under identified supervisors who specialise in subjects which can potentially be aligned with SDGs and national goals, i.e., a certain number of internships under identified guides shall be sponsored by University in predefined themes that are aligned with SDGs and national goals.
- D. As part of forward integration, any affiliated college may also develop an inventory of predefined themes/projects, pairing them with potential mentors from Labs/R&D institutions and/or universities. Such measures have to be well publicised through notice boards and institution websites

Q.199G21:

- (a) To be eligible to appear in the End of Semester Examination (EoSE), a candidate must secure a minimum of 40% marks (equivalent to Grade "C") in Continuous Assessment (CA).
 - (i) If, due to any technical reason, a candidate appears in the EoSE without fulfilling this requirement, a "★" (Star) shall be marked alongside the CA marks in the examination result/marksheet, the EoSE marks for that semester shall not be displayed, and "DT" (Detained) shall be recorded in the relevant column of the result/marksheet.

P
✓

- 142-
- (ii) If a candidate is absent in CA and, due to technical reasons, appears in the EoSE, "AA" shall be marked alongside the CA marks in the examination result/marksheet, the EoSE marks for that semester shall not be displayed, and "DT" (Detained) shall be recorded in the relevant column of the result/marksheet.
- (b) The ABC ID/APAR ID of every candidate shall be mandatory, and the examination result shall be uploaded to the National Academic Repository (NAD).
- (c) There shall be no supplementary/due paper/special examination. Students who fail to secure a Grade "C" in a course shall be required to re-register for the course, either as a Self-Study Course or as a Regular Course, if they so desire.
- (d) The provisions regarding revaluation and improvement applicable to the annual examination scheme shall also apply to the Semester Examination Scheme (EoSE) for undergraduate Courses.
- (e) All affiliated and constituent colleges shall mandatorily maintain records relating to CA and the academic performance of candidates for a minimum period of seven (7) years, and such records shall be provided to the University as and when required.
- (f) Every affiliated/constituent college shall appoint two (2) Counsellors from among the teaching staff, provide them with suitable office space and necessary facilities within the college campus, and display prominently the place and timings of their availability. The role of the Counsellor shall be to assist students in matters related to their academic programme, provisions of NEP 2020, and other related technical matters.
- (g) Similar to the Annual Examination Scheme, if a non-collegiate student secures 52 credits in the First Year (First and Second Semesters) of a UG Programme, such a student shall be eligible for admission to the Second Year of the Programme as a Regular student. For students converting from Non-Collegiate to Regular status, the examination scheme shall be the same as that applicable to Regular students.
After completion of the I year and II year, a non-collegiate student shall not be eligible for III-year admission as a regular student."
- (h) All required back semester/concerned semester examinations held with the in-force syllabus.
- (i) There shall not be provision of grace marks in the UG programme under NEP.

✓

Sd /
(Ashu Chaudhary)
Registrar

No. F. 2(6)/Acad.I/2025/ 4545-4628

Dated: 13/10/25

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Secretary to the Hon'ble Governor and Chancellor, Raj Bhawan, Jaipur.
2. The Secretary, Department of Higher Education, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. All Heads of the University Teaching/ Non-Teaching Departments, Jaipur.
4. All Principals of the University Constituent Colleges, UOR, Jaipur.
5. All Directors of the University Centres, UOR, Jaipur.
6. Controller of Finance & Financial Advisor, UOR, Jaipur.
7. Controller of Exams., UOR, Jaipur.
8. Director, Infonet Centre, UOR, Jaipur with the request to please upload the same on University website immediately.
9. P.R.O., UOR, Jaipur.
10. P.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, UOR, Jaipur.
11. P.A. to Registrar, UOR, Jaipur.

Rj | Jain
(Raj Kumar Jain) 13/10/25
Addl. Registrar

X

परिशिष्ट-ब

स्वयंपाठी परीक्षा-2026 के परीक्षार्थियों/महाविद्यालयों हेतु प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातक (कला/विज्ञान), एडिशनल एवं स्नातकोत्तर (भूगोल) परीक्षा-2026 के लिये जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि प्रत्येक छात्र को चयनित प्रायोगिक विषय में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, प्रशिक्षण नहीं लेने वाले छात्रों को परीक्षा-2026 की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

सभी स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण-2026 हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित किया जाता है:-

District - Jaipur

College Code	NAME	UG Arts Practical Subject	UG Science Practical Subject
356	Govt. Girls College, Chomu (Jaipur) (Only for Girls)	Geography, Psychology, Maths, Home Science	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography, Pshychology
361	Baba Gangadas Govt. Girls College, Shahpura (JPR) (Only for Girls)	Geography, Psychology, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography, Pshychology
1148	Baba Bhagwan Das Govt College, Chimanpura (Shahpura) Jaipur	Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany
366	Govt. College Sambhar Lake (Jaipur)	Geography, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
371	L.B.S. Govt. College Kotputli (Jaipur)	Geography, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
376	Govt. Arts College Chimanpura(Shahpura) Jaipur	Geography	Geography
1128	Govt. College, Mahuwa (Dausa)	Geography	Geography
378	Seth R.L. Saharia Govt. P.G. College, Kaladera (Jaipur)	Geography, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
385	Sri Satya Sai College for Women, Jaipur (Only for Girls)	Home Science Indian Music, Geography	--
394	Kanoria Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur (Only for Girls)	Geography, Psychology, Home Science, Statistics, Indian Music	Zoology, Botany, Geography, Chemistry, Statistics
400	Shri Bhawani Niketan Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur (Only for Girls)	Home Science, Geography, Indian Music, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Psychology, Geography
403	Alankar Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur	Geography, Home Science, Statistics, Psychology	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Psychology, Statistics, Geography,
424	Maharaja's College, Jaipur	--	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Psychology, Statistics, Geography, Geology (Boys & Girls)
426	Sh. Bahawani Niketan College for Boys, Jaipur	Geography, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
446	Rajasthan College, Jaipur	Geography, Psychology, Statistics, Maths, Indian Music	--
448	L.B.S. College, Tilak Nagar, Jaipur	Maths, Geography	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
459	S.S. Jain Subodh College, Rambagh Circle, Jaipur	Maths, Geography	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany
414	Vedic P.G. College, Mansarovar, Jaipur	Music, Geography & Home Science	--

District - Dausa

College Code	NAME	UG Arts Practical Subject	UG Science Practical Subject
322	Late Pandit Nawal Kishore Sharma Govt. Science & Commerce College, Dausa	Maths, Geography	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
332	Shri Sant Sundar Das Govt. Girls College Guteshwar Road, Dausa (Only for Girls)	Maths Home Science	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany
327	Rajesh Pilot Govt. College, Lalsot (Dausa)	Geography	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography
1028	Govt. Girls College, Lalsot (Only for Girls)	Geography	Geography
335	Rajesh Pilot Govt. College, Bandikui (Dausa)	Geography, Maths	Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Geography

- प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु परीक्षार्थियों को अपनी सुविधानुसार संबंधित महाविद्यालयों/विभाग में से किसी एक में (जहां पर उनके विषय उपलब्ध हों) जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क वेबसाइट www.univraj.org पर ऑनलाइन जमा कराना होगा तथा सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग में प्रशिक्षण शुल्क की हार्डकॉपी प्रस्तुत कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।





2. **प्रशिक्षण शुल्क:-** प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण लेने वाले स्नातक विज्ञान संकाय के परीक्षार्थी द्वारा प्रति विषय रुपये 1500/- कला संकाय के परीक्षार्थी प्रति विषय रुपये 1000/- एवं स्नातकोत्तर भूगोल विषय के लिए रुपये 2000/- प्रशिक्षण शुल्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करवाना होगा। प्रशिक्षण शुल्क सावधानीपूर्वक जमा करवायें। प्रशिक्षण नहीं लेने अथवा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने जैसी स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क जमा करवाने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऑनलाईन जमा प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क महाविद्यालयों को किसी भी स्थिति में नहीं दें।
3. शुल्क जमा करवाने के पश्चात् प्रशिक्षण फॉर्म का प्रिंट लेकर चयनित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। अन्यथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। चयनित महाविद्यालय जहाँ पर हार्ड कॉपी जमा करवायी है। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की निश्चित तिथि हेतु परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय/विभाग से सम्पर्क करें।
4. संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों (महाविद्यालयों) को यह भी निर्देशित किया जाता है कि:-
5. (i) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र महाविद्यालयों को उनके पोर्टल से ऑनलाईन डाउनलोड कर प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रशिक्षार्थियों को देना होगा। यह प्रमाण पत्र प्रायोगिक विषयों की परीक्षा के लिये निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों द्वारा जमा करवाने होंगे, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के अभाव में परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। संबंधित केन्द्राधीक्षक बिना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं करें, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्राचार्य द्वारा ऑनलाईन जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति परीक्षार्थी अपने रिकार्ड के लिए सुरक्षित रखें।
(ii) महाविद्यालय द्वारा जिन परीक्षार्थियों को ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं उनकी कक्षावार/संकायवार सूची शुल्क सहित प्रशिक्षण समाप्ति के 7 दिवस में परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित/जमा करवानी है, ताकि उनको देय हिस्सा राशि दिये जाने की कार्यवाही की जा सके।
(iii) परीक्षार्थियों द्वारा कुल जमा प्रशिक्षण शुल्क राशि में से नियमानुसार विश्वविद्यालय हिस्सा राशि काटकर प्रशिक्षण शुल्क का 60 प्रतिशत संघटक (Constituent) महाविद्यालयों एवं भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा 80 प्रतिशत राशि राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा उनके खाते में जमा करवाया जायेगा। अतः बिन्दु (ii) के अनुसार प्रेषित सूची के साथ महाविद्यालयों को प्राचार्य के खाते का बैंक विवरण (खाता धारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच एवं आई.एफ.एस.सी. कोड) प्रस्तुत करना है
6. परीक्षार्थियों की अधिकतम सीमा:- प्रत्येक महाविद्यालय में प्रति कक्षा/विषय/संकायवार अधिकतम 500 परीक्षार्थियों का ही पंजीकरण होगा। इसके पश्चात् उक्त कक्षा/विषय में पंजीकरण नहीं होगा।
7. प्रशिक्षण लेने वाले परीक्षार्थी केवल ऑनलाइन जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, अपितु उनकी योग्यता संबंधी जाँच विश्वविद्यालय स्तर पर करने के पश्चात् ही प्रायोगिक परीक्षा हेतु योग्य हो सकेंगे। प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र की सूची प्रायोगिक परीक्षा प्रवेश पत्र पर यथा समय पृथक से सूचित की जायेगी।
8. प्रशिक्षणार्थियों की कक्षा/संकायवार सूची महाविद्यालय पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड होगी।
9. प्रायोगिक प्रशिक्षण आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई समस्या हो तो परीक्षार्थी/महाविद्यालय हेल्पलाइन नम्बर 7726953531 अथवा टोल फ्री नम्बर 18001806433 एवं आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प लाइन नम्बर 7304914963 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

27.10.25
परीक्षा नियंत्रक
S.M.


परिशिष्ट-स

संबंधित परीक्षार्थियों एवं महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि:-

1. स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा एवं संकायवार निम्न सूची में से सिटी एवं नजदीकी महाविद्यालय का चयन कर ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरकर उसी महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवायें।
2. दौसा एवं जयपुर जिले के नियमित/पूर्व परीक्षार्थी उसी महाविद्यालय से परीक्षा फॉर्म भरेगें जहाँ के वे नियमित परीक्षार्थी हैं।

नोट: परीक्षा केन्द्र का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा बाद में निर्धारित होगा। किसी सिटी में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर नजदीकी सिटी/एरिया के उपलब्ध महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र आवंटित होगा जिसकी सूचना परीक्षा प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।

CITY WISE LIST OF COLLEGES FOR EXAM. 2026					
UG SEMESTER ARTS NON-COLLEGIATE FOR DAUSA AND JAIPUR DISTRICT					
District- Dausa					
City/Area Code	CITY/ AREA	College Code	College Name	Class	Remark
9101	Dausa	322	Pt. Nawal Kishore Sharma Govt. College, Dausa	B.A./B.Sc./B.Com	Boys
9101	Dausa	332	Sri Sant Sundardas Govt. Girls College, Dausa	B.A./B.Sc./B.Com	Girls
9102	Mahuwa	1128	Govt. College, Mahuwa (Dausa)	B.A./B.Sc.	Girls/Boys
9104	Lalsot	327	Rajesh Pilot Govt. College, Lalsot (Dausa)	B.A./B.Sc./B.Com	Girls/Boys
9105	Bandikui	335	Rajesh Pilot Govt. College, Bandikui (Dausa)	B.A./B.Sc./B.Com	Girls/Boys
District -Jaipur (Rural)					
9203	Sambhar Lake	366	Govt. College Sambhar Lake (Jaipur)	B.A./B.Sc./B.Com	Boys/Girls
9208	Kotputli	371	L.B.S. Govt. College, Kotputli (Jaipur)	B.A./B.Sc./B.Com	Boys
9208	Kotputli	374	Smt. Panna Devi Morijawala Govt. College, Kotputli (Jaipur)	B.A./B.Sc./B.Com	Girls
9209	Shahpura	376	Govt. Arts College Chimanpura (Shahpura) Jaipur	B.A.	Boys
9209	Shahpura	361	Baba Gangadas Govt. Girls College, Shahpura (Jaipur)	B.A.	Girls
9209	Shahpura	1148	Baba Bhagwan Das Govt College, Chimanpura (Shahpura) Jaipur	B.Sc./B.Com.	Boys/Girls
9210	Chomu	378	S.R.L.S. Govt. College, Kaladera (Jaipur)	B.A./B.Sc./B.Com	Boys/Girls
9210	Chomu	356	Govt. Girls College, Chomu (Jaipur)	B.A./B.Sc./B.Com	Girls
	Chaksu	1208	Govt. College, Chaksu	B.A.	Boys/Girls
	Dudu	1186	Govt. College, Dudu	B.A.	Boys /Girls
	Jamwa Ramgarh	1207	Govt. College, Jamwaramgarh	B.A.	Boys /Girls
District -Jaipur (Urban)					
9212	Agra Road	382	Gyandeep Mahavidhyalaya, Luniyawas, Goner Road, Jaipur	B.A.	Boys
9212	Agra Road	829	Shree Maharaja Vinayak College, Meena Paldi, Agra Road, Jaipur	B.A.	Boys
9212	Agra Road	431	Agarwal College, Jaipur	B.A./B.Sc.	Boys
9213	Sanganer	422	J.D.P.G. College, Jagatpura, Jaipur	B.A.	Boys
9213	Sanganer	847	Maheshwari College of Commerce and Arts Mahila Mahavidyalaya, S-5, Pratap Nagar, Jaipur	B.A.	Boys
9213	Sanganer	439	DCS P.G. College, Raghunathpura (Ratalya), Diggi Road, Sanganer, Jaipur	B.A.	Boys
9213	Sanganer	421	S.S. Jain Subodh Girls College, Sanganer (Jaipur)	B.A./B.Com.	Girls
9213	Sanganer	1014	Vinayak College, Renwal Manji, Jaipur	B.A.	Girls/Boys
9214	Mansarover	449	Podar International College, Mansarovar, Jaipur	B.A.	Boys
9214	Mansarover	413	Akashdeep Mahila Mahavidhyalaya, Mansarovar, Jaipur	B.A./B.Com.	Girls
9214	Mansarover	414	Vedic Balika Mahavidhalaya, Mansarovar, Jaipur	B.A.	Girls
9214	Mansarover	742	St. Wilfred's College for Girls, Mansarovar, Jaipur	B.A.	Girls
9214	Mansarover	433	Stani Memorial College, Mansarovar, Jaipur	B.A./B.Com.	Boys
9214	Mansarover	435	St. Wilfred's College, Mansarovar, Jaipur.	B.A./B.Com.	Boys
9215	Jhotwara	389	Tagore P.G. Girls College, Vaishali Nagar, Jaipur	B.A.	Girls
9215	Jhotwara	400	Shri Bhawani Niketan Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur	B.A.	Girls
9215	Jhotwara	426	Sh. Bahawani Niketan College for Boys, Jaipur	B.A.	Boys
9215	Jhotwara	679	Rajasthan Girls College, Keshav Nagar, Murlipura, Jaipur	B.A.	Boys
9215	Jhotwara	403	Alankar Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur	B.A.	Boys



9215	Jhotwara	418	Rawat Mahila Mahavidhyalaya, Karnivihar, Ajmer Road, Jaipur	B.A./B.Com.	Girls
9215	Jhotwara	464	Vivek Mahavidhalaya, Kalwar, Jaipur	B.A.	Boys
9215	Jhotwara	678	New Adarsh College, Jhotwara, Jaipur	B.A.	Boys
9216	Shastri Nagar	388	Sant Jaya Charya Girls College, Shastri Nagar, Jaipur	B.A.	Girls
9216	Shastri Nagar	392	Shri Khandelwal Vaish Girls College, Jaipur	B.A.	Girls
9216	Shastri Nagar	395	S.S.G. Pareek Girls College, Jaipur	B.A.	Girls
9216	Shastri Nagar	423	Biyani Girls College, Jaipur	B.A.	Girls
9216	Shastri Nagar	427	Sh. Khandelwal Vaish College, Shastri Nagar, Jaipur	B.A.	Boys
9216	Shastri Nagar	450	S.S.G. Pareek College, Jaipur	B.A.	Boys
9217	Rajapark	385	Sri Satya Sai College for Women, Jaipur	B.A.	Girls
9217	Rajapark	448	L.B.S. College, Jaipur	B.A.	Boys
9217	Rajapark	399	Vedic Kanya Mahavidhyalaya, Rajapark, Jaipur	B.A.	Girls
9218	Tonk Road	379	University Maharani's College, Jaipur	B.A.	Girls
9218	Tonk Road	394	Kanoria Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur	B.A.	Girls
9218	Tonk Road	872	Mahaveer College of Commerce, Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur	B.A.	Girls
9218	Tonk Road	409	Dr. B.R. Ambedkar PG College, Mahesh Nagar, Jaipur	B.A.	Boys
9218	Tonk Road	424	University Maharaja's College, Jaipur	B.A./B.Sc	Boys
9218	Tonk Road	446	University Rajasthan College, Jaipur	B.A./B.Com.	Boys
9218	Tonk Road	459	S.S. Jain Subodh College, Rambagh, Jaipur	B.A./B.Com.	Boys
9218	Tonk Road	458	University Commerce College, Jaipur	B.A.	Boys
9218	Tonk Road	419	S.S. Jain Subodh Girls College, Rambagh, Jaipur	B.A.	Girls
9218	Tonk Road	489	P.G. School of Humanities, Commerce, Jaipur	B.A.	Girls/Boys
9218	Tonk Road	482	University P.G. School of Social Sciences, Rajasthan University Campus, Jaipur	B.A.	Girls/Boys

Controller of Examination

27.10.25
